



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-12-2021

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-12-28 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-12-29	2021-12-30	2021-12-31	2022-01-01	2022-01-02
वर्षा (मिमी)	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	23.0	24.0	24.0	24.0
न्यूनतम तापमान(से.)	15.0	13.0	11.0	10.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	71	64	55	61	37
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	27	29	30	17
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	11.0	12.0	12.0	14.0	13.0
पवन दिशा (डिग्री)	53	57	64	48	49
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	1	5	5	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाये रहने के साथ 29 दिसम्बर को हल्की वर्षा होने की सम्भावना।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 23.0 से 24.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 10.0 से 15.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

### लघु संदेश सलाहकार:

वर्षा की सम्भावना को देखते हुए फसलों में पौध रसायनों का छिड़काव ना करें ।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	यदि गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई पर नत्रजन नहीं दिया गया है तो दूसरी सिंचाई के समय फुटाव की अवस्था पर (बुवाई के 45 दिन बाद) 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टर की दर से दें।
चना	चने की फसल को फली छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए इण्डोक्साकार्ब 14.5 एस.सी. 1 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
जीरा	बादल छाएं रहने के कारण जीरा की फसल में झुलसा रोग की सम्भावना है। अतः रोग की रोकथाम के लिए मैन्कोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
सरसों	सरसों की फसल पर सफेद रोली रोग के नियंत्रण हेतु मेटालेक्जिल 8 प्रतिशत व मैन्कोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें।
गाजर	गाजर की फसल में 5 -7 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करें।
गरारी	रिजका की प्रत्येक कटाई के बाद 15 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर दें।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	सौफ की फसल को छाछया रोग के प्रकोप से बचाने के लिए केराथेन एल.सी. 1 मि.ली. लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।